



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 363] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 19, 1978/अग्रहायण 28, 1900
No. 363] NEW DELHI, TUESDAY, DEC. 19, 1978/AGRAHAYANA 28, 1900

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

विस्तृत मंत्रालय

राजस्व विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 1978

विवेश यात्रा कर

सा. का. नि. 583 (अ).—केंद्रीय सरकार, वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1971 (1971 का 32) की धारा 46 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जानें पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, अन्तरराष्ट्रीय खेल-कूद प्रतियोगिताओं या टूर्नामेंटों या चैम्पियनशिपों में भाग लेने के लिए अन्तरराष्ट्रीय यात्रा करने वाली खेल-कूद टीमों के सदस्यों तथा उनके साथ जाने वाले प्रशिक्षकों को उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन, ऐसी यात्राओं की यात्रा उद्देश्यपूर्ण विदेशयात्रा कर के संदाय से वहां छूट देनी है जहां ऐसी यात्राओं का क्रिया भारतीय करेंसी में संदत्त किया जाता है या संदत्त है :

परन्तु यह तब जब ऐसे प्रयोजनों के लिए यात्रा, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रायोजित या अनुमोदित की गई है या उसके द्वारा उसकी सिफारिश की गई है।

[सं. 4/एफ. टी. टी./78 एफ. 306/10/77-एफ. टी. टी.]

ए. के. सरकार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th December, 1978

FOREIGN TRAVEL TAX

G.S.R. 583(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 46 of the Finance (No. 2) Act, 1971 (32 of 1971), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts members of the sports teams and coaches accompanying such teams performing an international journey for taking part in international sports competitions of tournaments or championships, from the payment of foreign travel tax leviable under-section (1) of section 45 of the said Act in respect of such journey, where the fare for which is paid or is payable in Indian currency.

Provided that the journey for aforesaid purpose has been sponsored or approved or recommended by the Government of India in the Ministry of Education.

[No. 4/FTT/78-F. 306/10/77-FTT]

A. K. SARKAR, Under Secy.